

Girls' High School & College, Prayagraj

Worksheet No. 2

Session 2020-2021

Class VI (A, B, C, D, E, F)

Subject: - Hindi Language

निर्देश - अभिभावकों से निवेदन है कि दिए गए अभ्यास-कार्य को किसी भी व्याकरण-पुस्तक के द्वारा पूर्ण करने में छात्राओं की सहायता करें।

पाठ - भाषा


मनुष्य बोलकर अपने भावों को व्यक्त करता है तथा आवश्यकता पड़ने पर वह लिखकर भी मन की बात को स्पष्ट करता है। इन दोनों का मूल आधार 'भाषा' ही है। भाषा शब्द 'भाष्' धातु से बना है।

भाषा वह साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान - प्रदान करता है।

संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। 14 सितंबर, 1949 को संविधान में हिन्दी भारत की राजभाषा स्वीकार की गई।

भाषा के रूप

भाषा के दो रूप हैं-



मौखिक भाषा - जब व्यक्ति अपने मन के भावों को बोलकर व्यक्त करता है, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है।

लिखित भाषा - जब व्यक्ति अपने मन के भावों को लिखकर व्यक्त करता है, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है।

लिपि- किसी भी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहा जाता है। भाषा का प्रयोग करते समय हम सार्थक ध्वनियों का उपयोग करते हैं, इन्हीं मौखिक ध्वनियों को जिन चिह्नों द्वारा लिखकर व्यक्त किया जाता है, वे लिपि कहलाती हैं।

प्रत्येक भाषा के लिपि-चिह्न अलग-अलग होते हैं तथा उन्हें अलग-अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिंदी व संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है। इसी प्रकार अंग्रेज़ी भाषा की लिपि रोमन, पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी, और उर्दू भाषा की लिपि फ़ारसी है।

कुछ प्रसिद्ध भाषाएँ एवं उनकी लिपियों के नाम इस प्रकार हैं-

भाषा	लिपि
1. हिन्दी	देवनागरी
2. पंजाबी	गुरुमुखी
3. अंग्रेज़ी	रोमन
4. उर्दू	फ़ारसी
5. गुजराती	देवनागरी

व्याकरण - भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना सिखाने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। सभी भाषाओं का व्याकरण अलग-अलग होता है ।

भाषा के शुद्ध रूप को सीखने के लिए व्याकरण में निम्नलिखित भागों का अध्ययन किया जाता है :-

1. वर्ण-विचार, 2. शब्द-विचार, 3. पद-विचार, 4. वाक्य-विचार ।

साहित्य - साहित्य का दूसरा अर्थ काव्य और गद्य से लिया जाता है । नृत्य, संगीत, नाटक, काव्य, वास्तुशिल्प, आदि ज्ञान के असंख्य क्षेत्र हैं । इनसे संबंधित ज्ञान का भंडार साहित्य कहलाता है।

कहानी, लघुकथा, उपन्यास, नाटक, पत्र, निबंध और कविताएं साहित्य के ही रूप हैं ।

Q 1) निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए -

1. मौखिक भाषा किसे कहते हैं ?
2. लिपि किसे कहते हैं?
3. साहित्य किसे कहते हैं?
4. लिखित भाषा का अर्थ क्या है?
5. भारत में बोली जाने वाली किन्हीं पाँच भाषाओं के नाम लिखिए ।
6. साहित्य के किन्हीं पाँच रूपों के नाम लिखिए ।

Q 2) रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए -

1. हिंदी भाषा की उत्पत्ति _____ भाषा से हुई है ।
2. व्याकरण के _____ भाग होते हैं ।
3. पंजाबी भाषा की लिपि _____ है ।
4. 'भाषा' शब्द _____ धातु से बना है ।
5. भारत की राष्ट्र भाषा का नाम _____ है ।

Q 3) निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए -

- (i) राजा
- (ii) तन
- (iii) अश्व

Q 4) निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए -

- (i) आदान
- (ii) सरस
- (iii) प्रेम

Q 5) निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों के एक से अधिक अर्थ लिखिए -

- (i) गति
- (ii) पानी
- (iii) मधु

Q 6) निम्नलिखित अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए -

- (i) जो नीचे लिखा गया हो ।
- (ii) जिसका कोई अंत न हो ।
- (iii) जो किसी का पक्ष न ले ।

Q 7) श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्दों के अर्थ लिखिए -

- (i) दशा , दिशा
- (ii) समान , सम्मान

E N D